

**DAV PUBLIC SCHOOL**  
**ASHOK VIHAR, PH-IV, DELHI-110052**

**SESSION 2018-19**

**Yes it's Crazy, Summer Holidays!!!**

Summer holidays are a special time to rejuvenate your inner strengths and do things that bring you pleasure. So, follow the **'PROTOCOL'** and make the most of your **'Vacationing'**.

1. Have at least 2 meals together with your children and ask them not to waste their food.
2. Help your mom in cooking. Make your fruit salad and Sandwiches.
3. Wash your plates after every meal and refill the empty water bottles of Refrigerator.
4. Tell your parents/Grand parents to share stories about their childhood.
5. Visit 3 neighbours. Know more about them and build rapport with them.
6. Play outdoors games early morning.
7. Avoid being in front of TV, mobile, phones, computers and gadgets for a longer time.
8. Learn 15 new words in English and adopt/include them in your day to day language.
9. Learn few folk songs.
10. Adopt one plant and name it also. Take care of it throughout summer vacations.
11. And above all do at least one "Act of Crazyness" that makes you "the Happiest" and note it down in your notebook.

# HOLIDAY H.W.

## CLASS - IV

### SUBJECT –ENGLISH

(Do in English Lab File)

Q1.Recycled Poetry

Look through old magazines and newspaper for interesting words and phrases. Cut them out. Begin and arrange them into some pattern which will make a poem. Paste the cut-out words and phrases in a poetic form.

UNDER                      AUGUST SKIES

IT'S HOT

BREAK AWAY

COME                      TO THE                      MOUNTAINS

COOL!                      AND                      IT'S GREEN

COME                      TO                      ENJOY                      THE SCENE

Write short stories on the given topics(You must use emoji's and smileys)

a)A day without mom.

b)Importance of books.

Q3.Write 20 naming words, 20 verbs(Action words) and 20 describing words(Adjective)

### SUBJECT –HINDI

- 1 अपने जन्मदिन की दावत के लिए एक निमंत्रण पत्र बनाइए तथा दावत में बनने वाले व्यंजनों की सूची चित्र सहित बनाइए।
- 2 अपने लिए सुंदर सी पोशाक का चित्र बनाइए तथा उसके बारे में लिखो पाँच से दस वाक्य।
- 3 दो. अनमोल वचन लिखो ए फॉर की शीट पर और उन्हें सजाओ भी।
- 4 अच्छी...अच्छी कहानियों की पुस्तक पढ़ो और कोई भी एक कहानी चित्र सहित लिखो।
- 5 प्रथम चकीय परीक्षा में आने वाला पाठ्यक्रम लिख लिख कर याद कर करो।

### SUBJECT –SCIENCE

Q.1 Paste original samples of tap root and fibrous root (one each) in the scrap file. Write about them and give 2 examples of each.

Q2. Paste 2 pictures of plants/trees found in following places-

- a) Jammu & Kashmir
- b) Kerela
- c) Rajasthan
- d) Delhi
- e) Pond

Q3. Revise for UT-1

## SUBJECT –S.ST.

- Q1. Prepare a useful item from waste material i.e. Kabaad se Jugaad (ch-6)  
Q2. Do all the map skills from ch1-7 in a scrap file and use separate political maps for each lesson/chapter.  
Q3. Learn syllabus of UT-1

## SUBJECT –ART

- Collect four (4) different types of Leaves (Dry them ) and create birds formations in art file.
- Do pages 1 to 20 in step by step.


## SUBJECT –GK

- Make a beautiful collage on the main- national, international and sports events held between April and June(Atleast 10 events)
- Make a beautiful collage on IPL teams:-their players and their logos(Teams selected for semi-finals and finals)


## SUBJECT - MATHS

Mathematics

Q1. Look at the pattern of numbers in hexagon



Use the same rule to make 2 hexagons in your Maths lab file with the help of coloured sheet of paper.



Q2. Make a working Model of a clock.

Q3. Make a <sup>separate</sup> copy and write table from 2 to 20.

Q4. Revise your syllabus for Unit test 1.